



1-थाना कांठ पुलिस ने बिना बताये घर से गये गुमशुदा व्यक्ति को तलाश कर किया परिजनों के सुपुर्द ।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.06.2021 को थाना कांठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गढ़ी से मोहम्मद कासिम पुत्र अख्तर हुसैन उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम गढ़ी थाना कांठ, मुरादाबाद बिना बताए घर से कहीं चला गया था। इस सम्बन्ध में कासिम के परिजनो द्वारा दिनांक 30.03.2022 को थाना कांठ पर गुमशुदगी दर्ज करायी गयी । उक्त गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु निरन्तर प्रयास व सर्विलांस की सहायता से गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दिनांक 06.09.2022 को जानकारी प्राप्त हुई कि वह जयपुर, राजस्थान में रह रहा है । जिस पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी कांठ द्वारा गुमशुदा कासिम की सकुशल बरामदगी हेतु थाना कांठ से उ0नि0 मनीष व कां0 राशिद को जयपुर राजस्थान भेजा, जहां उक्त टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि वह अब अहमदाबाद गुजरात में रह रहा है, पुलिस टीम के अथक प्रयासों एवं सर्विलांस की मदद से उक्त गुमशुदा व्यक्ति को अहमदाबाद गुजरात से सकुशल बरामद किया गया एवं थाना लाकर नियमानुसार परिजनों के सुपुर्द किया गया । पुलिस की कार्यवाही से खुश होकर कासिम के परिजनों द्वारा मुरादाबाद पुलिस का आभार व्यक्त किया गया ।-

2-थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत जूनियर हाईस्कूल कालाझाण्डा में बच्चों के साथ छेड़खानी करने के आरोपी शिक्षक को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 07-09-2022 को थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत स्थित गवर्मेन्ट जूनियर हाईस्कूल ग्राम काला झांडा में कुछ बच्चों के परिजन अपने बच्चों के साथ शिक्षक द्वारा हो रही छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे, इस दौरान शिक्षक स्कूल से फरार हो गया। बच्चों के परिजनों द्वारा इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी गयी, तहरीर के आधार थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- 429/2022 धारा 354/354ए भा0द0वि0 व 7/8 व 9m/10 पोक्सो एक्ट बनाम इशत्याक अहमद पंजीकृत किया गया ।

अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इशत्याक अहमद की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद के निकट नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना ठाकुरद्वारा पर पुलिस टीम गठित की गयी ।

उक्त के क्रम में आज दिनांक 09.09.2022 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये वांछित अभियुक्त इशत्याक अहमद पुत्र निजामुददीन निवासी ग्राम सबलपुर थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को जसपुर तिराहा, ठाकुरद्वारा से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

इशत्याक अहमद पुत्र निजामुददीन निवासी ग्राम सबलपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 429/2022 अन्तर्गत धारा 354 /354ए भा0द0वि0 व 7/8 व 9m/10 पोक्सो एक्ट थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र कुमार सिंह थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ।

2-उ0नि0 श्री प्रेमचन्द शर्मा थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ।

3-का0 अफसर अली थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ।

4-का0 राहुल कुमार थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ।

5-का0 सुभाष कुमार थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ।